



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1982/पौष 17, 1903  
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1982/PAUSA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## रक्षा मंत्रालय

### प्रावेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1982

का० नि० आ० 2 ई—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2)  
की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी  
बोर्ड महु के गठन में फेरकार होना वांछनीय है, एतद्वारा तदर्थ घोषणा  
करती है और यह अतिरिक्त निर्देश देती है कि 7 जनवरी, 1982 से  
एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरकार  
किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या 29/32/सी०/एल० एण्ड सी०/77/172/1-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

## MINISTRY OF DEFENCE

### ORDER

New Delhi, the 7th January, 1982

S.R.O. 2-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, Mhow, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of one year with effect from the 7th January, 1982.

[File No. 29/32/C/L&C/77/172-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 3.—ई—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2)  
की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के  
रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 2-ई दिनांक 7 जनवरी

1184 GI/81

(3)

1982 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक  
7 जनवरी 1982 के भाग 2 खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए,  
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों  
को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड महु के सदस्य  
के रूप में 7 जनवरी 1982 से मनोनीत किया गया है:—

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. ले० क० धर्म वीर   | धारा 14 की उपधारा (2) के<br>खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित |
| 2. डा० एल० सी० शर्मा | धारा 14 की उपधारा (2) के<br>खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित |

[फाइल सं० 29/32/सी०/एल० एण्ड सी०/77/172/1-सी०/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

भास्कर घोष,  
संयुक्त सचिव

S.R.O.3-(E):—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924, (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 2-E dated the 7th January, 1982, Published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part I Section 4 dated the 7th January 1982, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Mhow with effect from 7th January, 1982:—

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Lt. Col. Dharm Vir | nominated under clause (b) of<br>sub-section (2) of section 14.    |
| 2. Dr. L.C. Sharma    | nominated under clause (c)<br>of sub-section (2) of section<br>14. |

[File No. 29/32/C/L&C/77/172/I-C/D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE,  
Jt. Secy.

